



दूरभाष: 05862-270695 फ़ैक्स: 05862-270695

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर

KENDRIYA VIDYALAYA SITAPUR

सरोजिनी वाटिका, सिविल लाइन, सीतापुर

Sarojini Vatika, Civil Lines, Sitapur

जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश पिन- 261001

District-Sitapur Uttar Pradesh Pin-261001

स्थापित वर्ष -1992 विद्यालय कोड-1755 स्टेशन कोड-415

Website: www.kvsitapur.edu.in

CBSE AFFILIATION NO - 2100083

CBSE SCHOOL CODE - 09034

E-Mail Id : kvsitapur@kvsedu.org,

kv_stp@rediffmail.com

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: एफ-260118/के.वि.सीतापुर/2016-17/स्थापना दिवस/

दिनांक: 15.12.2016

विद्यालय में मनाया गया 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस'

आज दिनांक 15 दिसम्बर 2016 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस बड़े हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती मीता पन्त एवं श्री मुकेश कुमार के निर्देशन में छात्रों द्वारा के० वि० एस० स्थापना दिवस गीत 'भारत का स्वर्णिम गौरव केन्द्रीय विद्यालय लायेगा' प्रस्तुत किया गया। विद्यालय की छात्रा सुश्री अल्कमा हाफिज़ ने संगठन के मूल लक्ष्य भारत को एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए सभी के लिए समक्ष अपने विचार प्रभावशाली ढंग से रखे। विद्यालय के शिक्षक श्री निलेश मिश्र एवं द्वितीय पाली के शिक्षक श्री डी० के० अग्रवाल द्वारा संगठन के गठन एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती रुखसाना जबीन एवं द्वितीय पाली के शिक्षक श्री देवेन्द्र सिंह ने भी संगठन के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की एवं अपने अनुभव साँझा किये। विद्यालय के प्रथम पाली की शिक्षिका श्रीमती क्रिस्टीना चरण एवं द्वितीय पाली के शिक्षक श्री अशोक कुमार ने केन्द्रीय विद्यालय के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल द्वारा इस अवसर पर प्रेषित सन्देश को पढ़कर बच्चों को सुनाया। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने स्थापना दिवस के अवसर पर सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण की एवं दैनिक जीवन में उन्हें सम्मिलित करने की भी प्रतिज्ञा ली।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्री सुनील कुमार ने छात्रों में भारतीयता के विकास हेतु संगठन के प्रयासों को रेखांकित किया। कार्यक्रम का सफल सञ्चालन प्रथम पाली में श्री रजत कुमार एवं श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव द्वारा तथा द्वितीय पाली में श्रीमती वंदना राय द्वारा किया गया।

(सुनील कुमार)
प्राचार्य